



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

18 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 221 राँची, शुक्रवार,

9 मार्च, 2018 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

अधिसूचना

19 जनवरी, 2018

**संख्या- 3/पद-01(ग)-02/2015 का.- 604--** श्री राजू रंजन राय, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 688/03, गृह जिला- पटना) उप सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची (विभागीय अधिसूचना सं०- 464 दिनांक 16 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित निदेशक लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चाईबासा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री राय के स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं०- 464 दिनांक 16 जनवरी, 2018 को विलोपित किया जाता है ।

**संख्या- 3/पद-01(ग)-02/2015 का.- 605--** अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची सदर (धारित पद अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित) के पद पर पदस्थापित श्री अमल कृष्ण सत्यजीत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 709/03, गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**संख्या- 3/पद-01(ग)-02/2015 का.- 606--** उप सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 711/03, गृह जिला- देवघर) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अपने वेतनमान में अगले आदेश तक क्षेत्रीय निदेशक, झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची क्षेत्र, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

**संख्या- 3/पद-01(ग)-02/2015 का.- 607--** कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित श्रीमती प्रियंका सिंह, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावां के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्रीमती सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा जनवरी, 2018 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे ।

3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**एच० के० सुधाँशु,**  
सरकार के अवर सचिव ।

-----